



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 माघ 1935 (श0)

(सं0 पटना 135)

पटना, शुक्रवार, 7 फरवरी 2014

वित्त विभाग

अधिसूचना

7 फरवरी 2014

विषय:- पूर्णियाँ जिलान्तर्गत धमदाहा अनुमंडल में कोषागार स्थापित करने के संबंध में ।

सं० को0प्र0/स्था0-39/2012-1312—जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में भारतीय रिजर्व बैंक, लोक लेखा विभाग, दक्षिणी गौंधी मैदान, पटना 800001 से पूर्णियाँ जिलान्तर्गत धमदाहा अनुमंडल में कोषागार स्थापित करने की अनुमति की मांग की गयी । महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक लेखा विभाग, दक्षिणी गौंधी मैदान, पटना के पत्रांक - लो.ले. ई(पटना)/1554/03.01.005/2013-14 दिनांक 06.12.2013 द्वारा धमदाहा अनुमंडल स्थित भारतीय स्टेट बैंक, ए.डी.बी. धमदाहा को सरकारी लेन-देन हेतु प्राधिकृत करने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है । इस संबंध में सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी बैंकिंग विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय, पटना- 800 001 के पत्र क्रमांक- GBD/oth/77 दिनांक 05.12.2013 द्वारा धमदाहा शाखा से सरकारी लेन-देन की सहमति प्रदान की गयी है । फलस्वरूप पूर्णियाँ जिलान्तर्गत धमदाहा अनुमंडल में कोषागार की स्थापना करते हुए कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । कोषागार, धमदाहा दिनांक 01.04.2014 से प्रभावी होगा ।

2. धमदाहा अनुमंडल क्षेत्र में अवस्थित सरकारी कार्यालयों से संबंधित सभी कार्य, जिनका निष्पादन जिला कोषागार, पूर्णियाँ के माध्यम से हो रहा है, का निष्पादन दिनांक 01.04.2014 से कोषागार, धमदाहा से किया जायेगा । साथ ही, समस्त लेखा का संधारण कोषागार धमदाहा में ही किया जायेगा । धमदाहा अनुमंडल के क्षेत्राधिकार में, सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नवसृजित कोषागार, धमदाहा से ही अपना सरकारी नकदी कारोबार करेंगे ।

3. नवसृजित कोषागार, धमदाहा का स्थापना-व्यय मांग संख्या- 12 के अधीन मुख्य शीर्ष- 2054- खजाना एवं लेखा प्रशासन, लघुशीर्ष- 097, खजाना स्थापना, उपशीर्ष- 0001- कोषागार एवं अन्य उपकोषागार तथा विपत्र कोड संख्या- एन2054000970001 से विकलित होगा ।

4. जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ, धमदाहा अनुमंडल में अवस्थित उन सभी विभागों/कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की सूची एवं अन्य संबंधित अभिलेख नवसृजित कोषागार को उपलब्ध करा दें जिनका सभी नकदी कारोबार एतद् संबंधित कोषागार से ही किया जायेगा।

5. जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा एवं आरक्षी अधीक्षक, पूर्णियाँ/अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी, धमदाहा द्वारा नवसृजित कोषागार की सुरक्षा के लिये आवश्यक पुलिस बल आदि की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

6. सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीगण को यह निदेश दें कि बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम- 70, 84 एवं 117 में निहित प्रावधानों के अनुसार वे अपने हस्ताक्षर का नमूना कोषागार पदाधिकारी, धमदाहा को भेजेंगे।

7. जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ अपने स्तर पर समीक्षा कर धमदाहा कोषागार कार्यालय के लिये सृजित पदों का समुचित वितरण कोषागार पूर्णियाँ एवं कोषागार धमदाहा के बीच करने का अनुदेश निर्गत करेंगे। साथ ही, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए अपेक्षित कार्रवाई करेंगे।

8. जबतक नवसृजित कोषागार, धमदाहा के लिये कोषागार पदाधिकारी का पदस्थापन वित्त विभाग द्वारा नहीं किया जाता है तब तक के लिये जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ अपने स्तर से अधीनस्थ बिहार वित्त सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार लेखा सेवा के किसी एक पदाधिकारी को कोषागार पदाधिकारी के कार्यों/दायित्वों के निर्वहन हेतु अधिकृत करेंगे। कोषागार में पदस्थापित किये जाने वाले सहायक जिला लिपिक संवर्ग के कर्मी होते हैं। जिला पदाधिकारी लिपिकों के नियंत्री पदाधिकारी हैं। इसलिए धमदाहा कोषागार में आवश्यकता के अनुरूप लिपिक तथा पदचर का पदस्थापन समाहर्ता-सह-जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि कोषागार, धमदाहा में प्रतिनियुक्त किये जानेवाले लिपिक, लेखा परीक्षा में अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने चाहिये।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजीव हंस,
सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 135-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>